

BRAWN



CIN NO.: L74899DL1985PLC022468

1st August 2024

To,
BSE Limited,
25th Floor,
Phiroze Jeejebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai -400001

BSE Scrip Code: 530207 Scrip ID: BRAWN

Subject: Newspaper Advertisement(s) of Notice regarding transfer of Unclaimed Dividend/ Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir/Mam,

Please find enclosed copy of Newspaper Advertisement of Notice regarding transfer of Unclaimed Dividend/ Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority published in:

- A. Business Standard dated 1st August, 2024 (English)
- B. Business Standard dated 1st August, 2024 (Hindi)

This is for your information.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Brawn Biotech Limited

Priyanka Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed as above:

BRAWN BIOTECH LTD.

(Formerly Known as Brawn Pharmaceuticals Ltd.)

Regd. Office: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi-110024, INDIA Tel: 01129815331

Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

Corporate Office: Plot No. - 30, Sector - 33, Near Hero Honda Factory, Gurugram - 122001, Haryana, INDIA Tel: 0124-4666152, 4222462

Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

...for better life

How an elite institute that gave India many of its bureaucrats lost the plot

RAGHAV AGGARWAL

R au's IAS Study Circle, in the news for the tragic and avoidable deaths of three UPSC aspirants on July 27, was once the go-to institute to prepare for the Civil Services exam.

Civil Services exam.

It was founded over 70 years ago. in 1953, Iterally as a "study circle" by \$ Rau. Rau, who past students remember as soft-spoken, with some even calling him a legend, would teach them political science. It was an old-school, personal teacher-student engagement. The classes were held in a room in Hotel Palace Heights, behind the Odeon Cinema in Connaught Place, New Delhi.

more teachers, improved the infrastructure and eventually moved the study centre to the DCM building on the nearby Barakhamba Road. This remained its lone location for years. The one at Old Rajendra Nagar, where the recent tragedy occurred, was set up only post-pandemic. It now also has a centre at Koramangala, Bengaluru. Besides its highly reputed teacher, the institute's draw was the small size of its batches – no more than 100 students. Its competition would stretch the number to 300 to 400. The success rate was high, Its website claims that Rau's has pro-

website claims that Rau's has pro duced one in three of all bureaucrats

across cadres since its inception. Rajendra Nagar building hist about a month ago, in June, to discuss his Duvuri Subbarao, former governor new book, Just at Mercetan/y Notes of the Reserve Bank of India.

A 1972 batch 1AS officer, to students, he said: "Dr Rau could



Subbarao, who topped the exam that year, had visited the institute's Old

weaknesses and guide them accord-ingly." Rau was widely respected among both the faculty and the aspi-

a legend in his lifetime at civil servants of the past". He wrote, "Unlike the zillions of coaching insti-"Unlike the zillions of coaching insti-tutions we find today, scattered all over the country, Rau did not have a standard method of teaching... He was more an adviser than a teacher. His strength lay in the fact that many outstanding students had passed through his Study Circle, and he learnt from them as much as he coached them.

In 1980, Rau's IAS Study Circle In 1980, Rau's IAS study caree Private Ltd was incorporated. And in 1986, the reins of the institute went into the hands of Ved Prakash Gupta, an associate of Rau. Rau's IAS Study Circle was by then such a big brand that the name remained unchanged. The student count kept increasing.

Gupta, unlike Rau, was more open to the media. Besides mentoring UPSC aspirants, he founded a digital platform called Bazm-e-Khas for enthusiasts to showcase Gupta's son-in-law, Abhishek Gupta, who earlier worked at Watson Wyatt,

who earlier worked at Watson Wyatt. Evalueserve and real estate consul-tancy Jones Lang LaSalle, became its chief executive officer. A faculty member who once taught at Rau's said that after 2010, as competitors mushroomed, the institute started losing its relevance. The Covid-19 pandemic only made it worse. "Abhishek was focused on princing more facilities to the digital bringing more facilities to the digital orning more racinues to the digital medium," he said, asking not to be named. "The new building (at Old Rajendra Nagar, where the recent tragedy occurred) was a part of the efforts to bring Rau's back to the forefront." refront."

Abhishek Gupta, who was

arrested on July 28, is now in judicial custody. Delhi has two key UPSC coaching hubs: One in Old Rajendra Nagar, where the institutes largely cater to English-medium students; and the other in Mukherjee Nagar, where the centres also coach Hindithe need to be where the action was. The institute that once drew largely

the need to be where the action was. The institute that once drew largely elite students also decided to expand its base and cater to a wider pool. It started constructing the building in Old Rajendra Nagar in 2021 and later moved there. The library where the three students - Nevin Dalvin, Tanya Soni, and Shreya Yadav - drowned was opened in August 2023. Access to it was free, and it was part of the package the institute offered its students.

Today, Rau's Old Rajendra Nagar building is barricaded. It is a site of protest by students and teachers. The shock of what has happened is palpable among them. "Rau's was such a big name." says Shubham Aggarwal, a21-year-old student who had enrolled for coaching at the institute only last month. Placing his hand on a barricade, he adds. "If this can be a proposed in the control of the coaching at the institute only last month. Placing his hand on a barricade, he adds." If this can barricade, he adds. "If this can barricade he adds." If this can barricade he adds. "If this can barricade, he adds." If this can barricade he adds. "If this can barricade he adds." If this can be a supported in the can be a supported by the can be hand on a barricade, he adds, "If this can happen here, I wonder if I should have even come here."

PARIS 2024 OLYMPICS

ME	DALS TALLY	¥	¥	¥	
	Country	G	6	B	Total
1	China	8	6	2	16
2	Japan	7	2	4	13
3	France	6	9	7	22
4	Great Britain	6	6	5	17
5	Australia	6	4	3	13
38	INDIA	0	0	2	2

SINDHU, LAKSHYA IN PRE-QUARTERS

Badminton heavyweights PV Sindhu and Lakshya Sen (piduved) stormed into the pre-quarterfinals of the women's and men's singles events, respectively. Manika Batra's impressive run at the Paris Olympics ended with a 1-4 defeat to Japanese Miu Hirano in the women's singles pre-quarterfinals. Tokyo Olympics bronze-winner Lovlina Borgohain (75kg) began her quest for a second successive Games medal confidently as ner questor a securio successive anires integration interity as she out-punched Norway's Sunniva Hofstad 5-0 in her opening bout. In archery, Deepika Kumari joined Bhajan Kur in the women's individual archery round of 16 after winning her elimination match. ADITA KAUSHIK

> INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT Baroda sun Tower, Mumbai TENDER NOTIC

Details are available on Bank's website: www.bankofbaroda.in under Tenders section, CPPP and GeM Portal.

Addendum'; if any, shall be published on Bank's website www.bankofbaroda.in under Tenders section and GeM portal. Bilders must refer the same bedref final submission of the proposal.

P HATSH USH Alliance Air Aviation Ltd. Wholly Owned Subsidiary of AI AHL)

NOTICE INVITING TENDER Appointment of Cargo General Sales and Service Agent (GSSA) for Alliance Air Aviation Limited (AAAL)

> 19th July 2024 8th August 2024, 15:00 Hrs 8th August 2024, 15:30 Hrs The Tender can be downloaded from the

Brawn Biotech Limited
CN: L74899DL1985PL0022468
Regd. Office: C-64, First Floor, Lajpat Nagar-1, New Deihi-110024
ebsite: www.brawnbiotech.com; Email: solution@brawnbitotech.co
Ph. No: 01128815331

In the Rules.

Ingliance with Rules, the Company has communicated individually to the corholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to II
a papropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEFF
a evaluation on the website of the Company www.brambiolech.com. Share
erned may refer to the website to verify the details of their uncashed dividend and the

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its web should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplic share certificate(s)by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

state of unitable sport in Company does not need see a communitation of the common state of the common sta

tote to be transferred.

Amerholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be
PF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s)
riginal held by them, to convert it into DEMAT form and transfer in favor of IEPF.

Bank of Baroda invites proposals for following

INDIA EVENT CALENDAR

Golf (Men's Individual Stoke Play; Day 1) Gaganjeet Bhullar and Shubhankar Sharma **9**12:30

Shooting (Men's 50m Rifle 3 Position Finals) Swapnil Kusale

13:00

Hockey (Men's) ■ India vs Belgium ③ 13:30 Boxing (Women's 50kg; R016) ■ Nikhat Zareen ⑤ 14:30

Archery (Men's Individual) ■ Pravin Ramesh Jadhav • 14:31



Delhi to bring law to regulate coaching centres: Atishi

The Delhi government will bring a law to regulate coaching centres in the national ing centres in the national capital, cabinet minister Atishi said on Wednesday, days after three IAS aspirants drowned in the flooded basement of an institute in Old Rajendra Nagar.

Addressing a press conference, the minister said the

government will constitute a government will constitute a committee comprising gov-ernment officials and stu-dents from different coaching hubs to frame the law. The minister said the MCD, in the last three days, has cracked down on coaching centres using basements in violation of laws but long-term solutions are needed to resolve the matter. PTI



SONA COMSTAR

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

CIN: L27300HR1995PLC083037

Registered and Corporate Office: Sona Enclave, Village Begumpur Khatola, Sector 35, Gurugram, Haryana – 122004, India

Telephone: 951 124 76 8200

E-mail: investo@sonacomstar.com, Website: www.sonacomstar.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Member(s) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration Rules, 2014, as amended (the "Mel"), read together with the Companies (Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated Lune 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated May 5, 2020, 10/2021 dated June 15, 2020, 33/2020 dated December 38, 2020, 39/2020 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 82, 2022, and 99/2023 dated September 98, 2021, 38/2020 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 82, 2022, and 99/2023 dated September 99, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Regulation, 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations,") read with applicable circulars under the Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company scertaires of India ("SS-2") and any other applicable leav, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-anactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of the members of SONA BLy Precision Forgings Limited (the "Company") is sought for the following special resolutions by way of postal ballot remote e-voting "e-voting") process:

APPOINTMENT OF MR. PRADIP MANILAL KANAKIA (DIN: 00770347), AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY.

TO CONSIDER AND APPROVE RAISING OF CAPITAL THROUGH ISSUANCE OF EQUITY SHARES OR OTHER ELIGIBLE CONVERTIBLE SECURITIES FOR AN AMOUNT NOT EXCEEDING INR 2,400 CRORES

EXCEEDING INR 2.400 CRORES

To the MCA Circulars, the manner of volting on the proposed resolution is restricted only to e-volting, by castling votes electronically instead of submitting postal ballot forms. Accordingly, physical copy of Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to hose from these for this Postal Ballot. The communication of the assent of dissert of the Members would only be place through the e-voling system. In consonence with the same, the Company has sent the Notice Social Ballat along with the explanatory statement and instructions for e-voling vial extornic mode on dinesday, 31st July, 2024, to only those Members whose email [D(s) are registered with the Company pository participant(s) as on Friday. 28th July, 2024, or and any person who is not a renolider of the Company as on Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for Information pose only.

shareholder of the Company as on Cut-off date shall treat the Postal Isaliot Notice for Information purpose only.

The said Notices shall alloe be available on the vectorial of the Company at https://j.konaacomstar.com/.

The said Notices shall alloe be available on the vectorial of the Company at https://www.nebi.ndia.com/.

The Cambridge State of the Company are listed and National Securities Depository Limited ("NSDL") or which the equity shares of the Company are listed and National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing the evolving facility to all its Members. The remote e-voting period shall commence on Thursday, 1st August, 2024 at 0.90 A.M. (IST) and end on Friday, 30th August, 2024 at 0.90 Pol. M. (IST). The e-voting facility to all its Members. The remote e-voting period shall commence on Thursday, 1st August, 2024 at 0.90 A.M. (IST) and end on Friday, 30th August, 2024 at 0.90 Pol. M. (IST). The e-voting facility to all be disabled by NSDL immediately hereafter and vill not be allowed beyond the said date and time.

(Membership No. ACS: 32109), Partners of Mis Pi & Associaties, Practicing Company Secretaries, as after completion of the same, shall submit the scrutinizer report to the Chairmann') or any other person authorized by the Chairman, and therafter the result of the voting by Postal Ballot will be announced within two working days from the conclusion of the e-voting and shall also be made available on the website of the Company at www.soncomstar.com under Investor Relation Tab's awell as on NSDL at twww.evoting.add.com. These results will also be submitted to Stock.

Change(s). L. BSE and NSE.

embers who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses that here was not register their email addresses with their enspective DP, and Members holding shares in physical mode are requested to update their nail addresses with the Company's RTA by following the procedure set out in the Postal Ballot Notice. case of any queries, you may call to 02 - 4886 7000 or 02 - 2499 7000 or send a request to Ms. allawi Mhatre – Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED















	tract of Unaudited Consolidated Fir the Quarter ended 30.06.2024	(in Cron	(in Crore Except EPS)		
Sr.		Qı	uarter Ende	ed .	Year Ended
No.	Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023 Restated ^	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	36464.61	37410.39	35983.21	142323.98
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	14147.21	11430.48	13385.19	48812.61
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	14147.21	11430.48	13385.19	48812.61
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	10959.47	8682.20	10528.03	37402.29
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11028.53	8207.77	10712.03	36986.84
6	Equity Share Capital (Face value of share ₹ 10/-each)	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73
7	Other Equity				76567.05
8	Earnings per share (EPS) (of ₹ 10 /-each)*				
	Basic: (in ₹)	17.78	14.09	17.08	60.69
	Diluted: (in ₹)	17.78	14.09	17.08	60.69

* EPS is not annualised for the quarter ended

Notes to the unaudited consolidated financial results The accounting for stripping activity adjustment was re hence the figures for the quarter ended 30th June 2023 has been restated. Reconciliation of the restated profit for the quarter ended 30th June 2023 is given below

	Quarter Ended
Particulars	30.06.2023
	Unaudited
Previously reported profit for the period/year	7941.4
Depreciation/amortization/ impairment expense	388.36
Stripping activity adjustment	(3,061.22)
Current tax	(330.92)
Deferred tax	446.79
Restated profit for the period/ year	10498.39
Previously reported Earnings per share (EPS)	12.93

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 (In Crore Except EPS)						
Sr.		Ç	uarter End	led	Year Ended	
No.	Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	389.71	488.05	335.75	1516.38	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	121.18	3425.82	978.15	16042.12	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	121.18	3425.82	978.15	16042.12	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	87.46	3336.22	918.02	15766.83	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	79.60	3306.46	910.21	15718.00	
6	Equity Share Capital (Face value of share 10/-each)	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	
7	Other Equity				11242.60	
8	Earnings per share (EPS) (of 10/- each)*					
	Basic: (in)	0.14	5.41	1.49	25.58	
	Diluted: (in)	0.14	5.41	1.49	25.58	

* EPS is not annualised for the quarter ended

 The above are the extracts of the detailed formats of Consolidated (including subsidiaries/ share in jointly 1. In a above are the extracts of the detailed formats of consolipated including subsidiaries/ shall en jointly controlled entitles) and Standalone financial Results for the quarter ended 30-06-2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30-06-2024 are available on the Stock Exchange websites and on the Company's website: www.coalindia.in SSE Limited: www.bseindia.com NSE Limited: www.bseindia.com

2. The above consolidated unaudited financial results, have been reviewed and recommended by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31-07-2024. As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Statutory Auditors have reviewed the above consolidated financial results for the quarter ended 30-06-2024.

NUTURING NATURE

ENABLING LIFE

The ran youriers on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company Registrar and Share Transfer Agents, RCMC Share Registry Private Limited, B-25f., 1st Rico Okhla industrial Area, Phase-II, New Deihi-110020, Temil's seckbastes@(rmcoffel).com. By order of Board Brawn Biotech Limite

SONA BLW















सीआईएन : L74899DL1985PLC022468 पंजीकृत कार्यालय: सी-64, प्रथम तल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 वेबसाइट : www.brawnbiotech.com, ईमेल : solution@brawnbiotech.com

फोन नंबर: 01129815331 कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए

श्यरधारकों के एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियमों , 2016, जैसा कि संशोधित किया गया है 'नियमों'') के अनुरसरण में , कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश को आईईपीएप प्राधिकरण को हस्तानांतरित करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसका सात वर्षों की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया था। संगत शेयर जिन पर लाभांश का लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया था, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने संबंधित शेयर धारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप रं सचित किया है जिनके शेयर उचित कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.brawnbiotech.com पर भी उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शेयरधारक अपने बिना भुनाये लाभांश के विवरण और हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों को सत्यापित करने के लिए वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं।

लिए उत्तरदायी हैं. वे ध्यान दे कि कंपनी उनके द्वारा धारित मल शेयर प्रमाणपत्र के बदले प्रतिलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, ताकि इसे डीमैट रूप में परिवर्तित किया जा सके और आईईपीएफ के पक्ष मे

शेयरधारक यह भी ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों पर विचार किया जाना चाहिए और आर्दर्धपीएफ को शेयरों के हस्तानांतरण के उदेश्य से कंपनी दारा प्रतिलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कंपनी को इस सूचना की दिनांक से **तीन महीने के भीतर** संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों कि आवश्यकताओं का अनुपालन करने की दृष्टि से , नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत दिनांक तक लाभांश को आईईपीएफ को हस्तांतरित कर देगी। संबंधित शेयर जिन पर लाभाँश लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया जाता है, उन्हें भी बिना किसी और सूचना वे स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कुपया ध्यान दें कि दावा नहीं की गई लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के संबंध में

हूं कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयर धारक आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश और मंबंधित शेयरों का दावा कर सकते हैं जिसमें ऐसे शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों आईईपीएफ अधिकारियों से नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्राप्त होते हैं। उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रासंफर एजेंटों, आरसीएमसी शेयर र[े]जिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, बी–25 / 1, प्रथम तल, औखल औद्योगिक क्षेत्र, फैज-2, नई दिल्ली-110020, ईमेल: sectshares@rcmcdelhi.com से संपर्क ब्रॉन बायोटेक लिमिटेड बोर्ड के आदेश र

दिनांक: 31.07.2024

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी स्थान : दिल्ली

मैसर्स एफई (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में) एन: L74899DL1994PLC061447

(माननीय प्रनमीपलरी के 12 अप्रैल 2010 के आहेश के अनुमार प्रियमापन प्रक्रिया के तहत एक कंपनी) कंपनी का पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली - 110048 दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री आवेदन करने और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 (शाम 6:00 बजे तक योग्य बोलीदाता की घोषणा की तिथि: सोमवार, 19 अगस्त 2024

परिसंपत्तियों का निरीक्षण या उचित परिश्रमः मंगलवार, 20 अगस्त 2024 से मंगलवार 27 अगस्त 2024 योग्य बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि: गुरुवार, 29 अगस्त 2024 ई-नीलामी की तिथि और समयः सोमवार २ सितंबर २०२४ सबह ११:०० बजे से ग्राम ५:३० बजे तक

(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

बिक्री https://www.eauctions.co.in पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी

ब्लॉक	आस्ति का विवरण	बिक्री वसूली	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि मूल्य (प्रतिशत में)
1.	वित्तीय परिसंपतियों को आसानी से वसूली न होने वाली परिसंपतियों के रूप में बेचा जा रहा है, जिसमें विविध्य देनदार, ऋण और अग्रिम (परिसंपति), अन्य अग्रिम, सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि आदि शामिल हैं (परिहार आदेवन के अनुसार प्राप्तियों छोड़कर, जिनका लेखा एफई (इंडिया) लिमिटेड को लेखा	बोली मूल्य के साथ अग्निम प्रतिफल के रूप में एक निश्चित घटक और सीडी के हितधारकों के साथ वास्तविक प्राप्ति के प्रतिशत को साझा करने के रूप में एक परिवर्तनीय घटक का संयोजन, जिसमें न्यूनतम बोली मूल्य 50% होगा।	(नीलामी की तिथि	(₹.) 5,50,000 /-	2.50%

ई-नीलामी की व्यापक शर्ते और संपत्तियों के अन्य विवरण वेबसाइट यानी http://www.eauctions.co.in प अपलोड किए गए हैं।

कोई भी गंभीर और इच्छुक खरीदार इसे देख सकता है और इसके लिए बोली प्रस्तुत कर सकता है। ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से संपर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति ईमेर आईडी: admin@eauctions.co.in, मोबाइल नंबर: +91 7874138237

रिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्तिः श्री शिवम जायसवाल, ईमेल आईडी feindialiquidation@gmail.com दरभाष संख्या ०११–४२४४००७१–७४. मोबाइल नंबर: +९१ ९६५४९१८२२० ' इस मामले में परिसमापन अवधि 13.08.2024 को समाप्त होने जा रही है। इसलिए, उपरोक्त बिक्री माननीय एए द्वारा परिसमापन अवधि के विस्तार की मंजूरी के अधीन है। इस संबंध में आवेदन माननीय एनसीएलटी, न दल्ली के समक्ष हितधारक परामर्श समिति से अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाना है।

नीलेश शर्मा. परिसमापक (मोबाइल नम्बर: +919811418701 ईमेल आईडी: nilesh.sharma@rrrinsolvency.com IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232 स्थानः नई दिल्ली

Dish TV India Ltd

आईबीबीआई एंजीकरण संस

एएफए वैध: 14.12.2024 तक

DISH TV INDIA LIMITED Corp. Office: FC-19, Sector 16 A, Noida - 201301, U.P.

Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400062 E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553, Website: www.dishd2h.com Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given to the shareholders of Dish TV India Limited ('the Company'), pursuant to the provisions of Section(s) 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time ('Rules') read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), Circulars issued by SEBI in this regard, Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and a amended from time to time), to transact the special business as set out in Postal Ballot Notice dated July 24

The Notice have been sent on July 31, 2024 in compliance with the MCA Circulars, by electronic mode to those Shareholders whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as received from Depositorio as on Friday, July 26, 2024, i.e. ['Cut-off date'] and whose email addresses are registered with the Company. RTA. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only. The copy of Notice along with explanatory statement is also available on the website of the Company a www.dishd2h.com, Stock Exchanges National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com, BSI imited ('BSE') at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section(s) 108 and 110 of the Act read with the Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 read with Regulation 47 of Listing Regulations & Secretarial Standard on General Meetings issue by issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company i leased to provide Remote E-Voting facility through E-Voting Platform of National Securities Depository Limited ('NSDL'), which would enable Members to exercise their right to vote on the resolution appended to this Notice, by way of Remote E-Voting. All documents referred to in this Notice will be available for inspection . lectronically, on all working days, until the last date of Remote E-Voting. The Company has engaged Mr. Jayant Gupta, Practicing Company Secretary (CP No.-9738) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Members are requested to note the e-Voting Instructions as follows

Place: Noida

Date: July 31, 2024

- (a) The Notice is being sent to the members of the Company whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners of the Company as received from the RTA/Depositories as on the cut- off date and shall be entitled to vote on Resolution set forth in the Notice. A person who is not a member as or cut- off date should treat this notice for information purpose only.
- (b) The Remote E-Voting period will commences on Thursday, August 1, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Friday, August 30, 2024 till 5:00 P.M. (IST). During this period, shareholders of the Company may cast their vote electronically. The Remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the prescribed date and time for Remote E-Voting. Once the vote on resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder shall no
- (c) During the period, members of the Company as on the cut-off date holding shares in physical or in dematerialised form, may cast their votes through Remote E-Voting. Once the vote on resolution is cast by the member, the same cannot be subsequently modified by such member.
- (d) Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice and in particular the procedure of casting vote through Remote E-Voting.
- (e) If you have any queries or issues regarding Remote E-Voting can contact NSDL on www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager at evoting@nsdl.co.in

The result of the voting by Postal Ballot will be announced by the Chairman or to a person authorized by the Chairman in writing, who shall countersign the same. The results of the Postal Ballot conducted through Remote E-Voting process along with the Scrutinizer's Report shall be appounded within permissible timelines and wil be displayed along with Scrutinizer's Report on the website of the Company viz. www.dishd2h.com, besides being ommunicated to Stock Exchanges

> By Order of the Board of Directors For Dish Tv India Limited

> > Membership. No. A15442

Company Secretary & Compliance Officer



एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफिस : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 [(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन के तहत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुचना में नीचे वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग

ू कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्वारा कर्जदार और आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए

पत्येक खाते के सम्मख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति क कोई भी लेन-देन नीचे वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के

क्र. सं.	आवेदक(कों) तथा सह- आवेदक(कों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि		मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे का प्रकार
1.	सह-आवेदक : श्री मदन गोपाल	पलैट नं. एफ-1 से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग,	19.08.2023 तथा उस पर ब	30.07.2024 याज एवं अन्य !	रु. 42,03,812.58 प्रभार	सांकेतिक कब्जा
	सिंह ऋण खाताः 310100002893	प्रथम तल, सामने की ओर खण्ड-III इन्द्रिशपरम्म गा			एलआईजी, प्लॉट	नं. 728, शक्ति

सीमाएं : उत्तर : प्लॉट नं. 727, दक्षिण : प्लॉट नं. 729, पूर्व : रोड 80 फीट चौड़ी, पश्चिम : प्लॉट नं. 695

उपरोक्त के अनुसार बकाया राशितथा भावी ब्याज एवं मांग सूचना की तिथि से अन्य प्रभार।

तिथि : 31.07.2024, स्थान : गाजियाबाद अधिकृत प्राधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IndiaShelter

प्रियंका शम्

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 10-डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपरपज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान

आईस्सएफसी) (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के पास गिरवी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना एतंदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रॉ), सह-कर्जदार/रॉ और गारंटर(रॉ) या उनंद (आध्रप्रस्पता) (सवस्याक काइटर) के भाग ता वह तथा का बिका का लिए सूचना एतद्वारा सामन्य रूप सामन्य क्या का वारा विश्व पर से कनदार (त), तर-कवारण का गाइटर (ग) था उनक कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधियों को नोदिस दिया जाता है कि नीचे चिलित उचल संपत्ति अंतिर प्रतिस्व का का आईप्रस्प्य सी क्या प्राधिकृत अधिकारी (सिक्योंक केडिटर) द्वारा कर लिया गया है, को नीचे उल्लिखित उध्यरकांकों, सह-उधारकांकों या गार्रटों से बकाया राशि की वस्तु के लिए 06 सितम्बर, 2024 (नीलामी को तिथि) को ''कहिं हैं और है'', ''जो हैं यही है'' तथा ''जो हुक भी है वहीं है'' आधार पर चेवा जायेगा। आरक्षित मूच्य और जमा धरीतर राशि का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्यजनिक नीलामी में भाग लेने के एह एं इंप्सर्थ राशि चाल मुहत्यंद लिएकामा आईप्रस्प्यती के अधिकृत अधिकारी के 05 सितम्बर, 2024 को उठल को अप. तक गांधा / किपीट कार्योंलयः पर्दि। उठी मितिल, सेक्टर-44, इंट्येट्सुमनल एरिया गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालयः इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉपीरशन लिमिटेड, प्रथम तल, 10-डी, पंजवानी कॉप्यलेक्स, सामने मल्टीपराज स्कूल, गुमानपुर, कोटा-324007,

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत] वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेश

ऋण खाता सं.∕एपी आईडी	कर्जदास् रों)/सह-कर्जदास् रों) /जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारी (यों)/विधिक प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना की तिथि अब तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
CLA100002816/ AP-0700670	श्रीमती संगीता बाई, श्री विनोद कुमार, गुलाब बाई (विधिक उत्तराधिकारी) तथा श्रीमती गीता	23.06.2022, 01.06.2022 को रु. 6,76,908.34/- (रुपये छः लाख छिहतर हजार नौ सौ आठ एवं चौतीस पैसे मात्र) तथा 02-जून-2022 से पूर्ण भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज सहित	भौतिक	रु. 7,07,200/- (रुपये सात लाख सात हजार दो सौ मात्र)	रु. 70,720/- (रुपये सत्तर हजार सात सौ बीस मात्र)
संपत्ति का विवरण: रामदेव मंदिर के पास प्लॉट वाली पूरी संपत्ति, इंद्रा गांधी नगर, वार्ड नं. 31, कोटा राजस्थान 324004, क्षेत्रफल 102.09 वर्ग गज। सीमा: पूर्व-घर राजू मीना, पश्चिम-घर मांगी बाई, उत्तर-रोड, दक्षिण-घर देवी शंकर					

1) निर्धारित निविदा / बोली प्रपत्र और बिक्री के नियम और शर्ते शाखा / कॉपोरेंट कार्यालयः प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाख कार्यालयः इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पीरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, 10-डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपरपज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान पर सुबह 10.0

बजे के बीच सायं 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर में उपलब्ध होंगी। अचल संपत्ति आरक्षित मुल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। उपरोक्त संपत्तियों की खरीद के लिए जमा की गई सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरोक्तानुसार '**इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेंशन लिमिटेड**' के पक्ष में ईएमडी राशि संलग्न की जाएगी। नीलाग

के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।) उच्चतम बोली लगाने वाले को हमेशा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानुनी रूप से योग्य हो और बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित मुल्य से कम न हं

जब पेशकश की गई कीमत इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करने की सलाह न दी जा सके तो यह प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा कि वह उच्चतम बोली को अस्वीकार√स्वीकार करे।) संभावित बोलीदाता 4 सितम्बर, 2024 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच पूर्व समय लेकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

) सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति, घोषणा के तुरंत बाद, खरीद राशि/उच्चतम बोली की राशि का 25% जमा करेगा जिसमें ईएमडी राशि 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर होगी। और इस तरह की जमा राशि में चुक होने पर, संपत्ति को तुरंत निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा।

कता। जार २२ तर का जा चारा में कुछ का में, पात्र का भुष्टा गया जार वारा में सामाजिक का रिष्ट आ जार है। उपरोक्तानुता प्रियोक जानिक की स्थित में, देव केता धन की पास का भुगाना केता हात प्राकृत अधिकारी की संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले ऐं दिन को छोड़कर यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर।

्रकर वर्णित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में युक्त होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी सर्पि ह्यारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। इंएमडी सहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपॉरेंर लिमिटेड ह्यारा जब्त कर ली जाएगी और डिफॉल्ट खरीदार संपत्ति के सभी दावों को खो देगा।

9) उपरोक्त विक्री आईएसएफसी के अतिम अनुमोदन के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों/कार्यालयों से वैधानिक और अन्य बकाया जैसे विक्री/संपत्ति कर, बिजली बकाय और सोसाइटी बकाया की पृष्टिपृष्टि करें। कंपनी संपत्ति पर किसी भी देय राशि के पुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

10) 1% का टीडीएस, यदि कोई हो, उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि से अधिक देय होगा। भुगतान कंपनी के पैन में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा किया जाना चारि और चालान की प्रति कंपनी को जमा की जाएगी।

बिक्री इस विज्ञापन में और निर्धारित निवदा प्रपत्र में शामिल नियमों और शर्तों के अधीन है।

12) सफल बोलीदाता/क्रेता कानून के अनुसार पंजीकृत विक्री प्रमाण पत्र को मुलकर सभी स्टाम्प झुल्क, पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक खर्ची को वहन करेगा।

13) प्रापिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्वर्गात/आस्वगित/निविदा को रह करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस विक्री के किसी भी नियम अं

शर्तों को संशोधित करने का पर्ण अधिकार है। 14) इंच्छूक बोलीदाता **श्री अभिषेक सिंह, मोबाइल नम्बर** +91-98282 82111 **एवं श्री नवोदय त्रिपाठी, मोबाइल नम्बर** +91-96942 54849 पर कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10.00 व से शाम 6.00 बजे तक) सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदारीं/वंधककर्ताओं/जमानतियों को नोटिस दिया जाता है कि धारा 13(2) के तहत मांग सुचना में उल्लिखित राशि का भुगतान आज की तारीख के व्याज और नीलामी की तारीख से पहले व्यय के साथ क ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत सहित वसल किया जाएगा (प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटे

दिनांकः 01.08.2024, स्थानः राजस्थान

(CSATIN

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN:L65991DL1990PLC041796 Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033 Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India Phone: 0124-4715400, Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(₹ in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2024	Quarter ended March 31, 2024	Quarter ended June 30, 2023	Year ended March 31, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	63,435.20	64,688.48	46,371.73	2,24,052.78
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	14,101.44	17,107.76	11,754.38	58,288.79
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	14,101.44	17,107.76	11,754.38	58,288.79
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	10,528.05	12,821.94	8,787.31	43,593.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.42	710.48	(1,147.78)	607.03
6	Paid up Equity Share Capital	11,004.32	11,004.32	8,807.84	11,004.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	2,29,080.51
8	Securities Premium Account	1,47,213.33	1,47,213.33	1,16,064.76	1,47,213.33
9	Net Worth	2,49,090.33	2,40,000.06	1,68,664.22	2,40,000.06
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Debt Equity Ratio	3.25	3.33	3.83	3.33
12	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	8,06,115.84	7,91,494.06	6,56,042.55	7,91,494.06
13	Earnings Per Share (₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	9.57 9.57	11.66 11.66	10.23 9.91	44.34 43.27
14	Capital Redemption Reserve	2,777.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. (₹ in Lakhs)

Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

	Brief of Graduited Startadione 1 mariotal Results for the Quarter critical starte 50, 2027								
S. No.			Quarter ended June 30, 2023	Year ended March 31, 2024					
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited				
1	Total Income	58,211.48	59,391.71	42,204.06	2,05,064.82				
2	Profit/(Loss) Before Tax	13,753.93	16,736.49	11,487.14	56,584.95				
3	Profit/(Loss) After Tax	10,261.25	12,528.05	8,591.33	42,284.41				
	•								

Notes:

Place: Gurugram

Date: 31.07.2024

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') in their meeting held on July 31, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com).
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point no. 2 above.
- These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. For Satin Creditcare Network Limited

(Harvinder Pal Singh)

Chairman cum Managing Director DIN: 00333754 IndusInd Bank

एफआरआर ग्रुप, 11वां तल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स. न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माए तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना, निम्नांकित तिथि, निर्गत की थी, जिसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता के सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता, गारंटर(गण) तथा बंधककर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता, गारंटर(रॉ)

बंधककर्ता(ओं) तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का, उक्त नियमावली व नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में अंकित तिथि को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता, गारंटर(रों), बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति क

लेन-देन न करें तथा संपत्ति का को	ई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, इंडसइंड बैं	क लिमिटेड के प्रभ	ाराधीन होगा।	
ऋणकर्ता / गारंटरों / बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	अधिग्रहण तिथि	मांग सूचना में राशि
	अचल आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो फ्लैट नंबर सी–2/1105 के		4	करोड पैंतीस लाख छिड़त
तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री शारदा तनेजा, तनेजा कम्प्लीट	रूप में, 11व तल पर, टावर सा—2, ट्यूलप गांड गाम अकबरपर बरोटा इटबस्त नं 62	। हजार चार सा तान मात्र) 31.08.2021 के अनुसार तथा 01 , से भावी ब्याज तथा उस पर लागत, शुल्क और व्यय इत्य		
होम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 31-07-2024	स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1221 वर्ग फुट है स्थान : सोनीपत	और जो श्री संजय		नेत्वधारण में है। अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड

राहुल मर्चन्डाईजिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एच.नं. 1/61-बी, विश्वास नगर शाहदरा ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110032 ईमेल आईडीः rahulmerchandising@gmail.com, वेबसाइटः www.rahulmerchandising.in सीआईएनः L74899DL1993PLC052461, फोनः 9711114429

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)

विवरण		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
1993.1	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	2.75	(1.28)	0.00	5.0
अन्य आय	0.00	0.01	0.00	0.1
अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)	(1.37)	(0.38)	(2.01)	(2.77)
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(1.37)	(0.38)	(2.01)	(2.77)
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(1.37)	(0.38)	(2.01)	(2.77)
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	(1.37)	(0.38)	(2.01)	(2.77)
इक्विटी शेयर पूंजी	351.23	351.23	351.23	351.23
आरक्षित (पुनर्मृत्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार				(373.05)
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के) (बालू व बंद प्रचालनों के लिए) –				
1. मूल 2. तरल	(0.04) (0.04)	(0.01) (0.01)	(0.06) (0.06)	(80.0) (80.0)

नोटः ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः <u>www.bseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट <u>www.rahulmerchandising.in</u> पर भी उपलब्ध है।

हिते **राहुल मर्चन्डाईजिंग लिमिटेड**

(वैभव गोयल) (पूर्णकालिक निदेशक) डीआईएनः 078995

UNO MINDA

ऊनो मिंडा लिमिटेड

(पर्व की मिंडा इण्डस्टीज लिमिटेड)

दिनांकः 31.07.2024

(सीआईएन : L74899DL1992PLC050333)

पंजीकृत कार्यालय : बी-64/1, वजीरपुर इण्डिस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

कॉर्पोरट कार्यालय : ग्राम नवादा फतेहपुर, आरओ. सिकन्दरपुर बद्दा, निकट आईएमटी मानेसर,

गरुग्राम (हरियाणा)-122004 वेबसाइट : www.unominda.com, ई-मेल : investor@unominda.com

दूरभाष : +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427 फैक्स : +91 124 2290676

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से) की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के बारे में जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और अन्य लाग परिपत्र के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और इस संबंध में सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई. 2020 तथा नवीनतम परिपत्र दिनांक 07 अक्टबर. 2023 ('सेबी परिपत्र') (सामहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' सन्दर्शित) के सभी लाग पावधानों के अनुपालन में एजीएम बलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को सुबह 10:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओपवीपम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सहस्य वीसी/ओपवीपम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://www.evoting.nsdl.com पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एजीएम और स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.unominda.com/, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और स्टॉक की वेबसाइट एक्सचेंज, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। ईमेल पते को पंजीकत/अद्यतन करने का तरीकाः।

. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य के फोलियो नंबर, नाम और पते. पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति. और सदस्य के पते के समर्थन में कोई भी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, चनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) का उल्लेख करते हुए फॉर्म आईएसआर-1 की हस्ताक्षरित प्रति के साथ कंपनी या रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट. अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड ('आरटीए') को पत्र लिखकर अपने ईमेल पते अपडेट करें।

होपीआईही+ सीएलआईही या 16 अंक लाभार्थी आईही) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की पति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, और सदस्य के पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की प्रति का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी या आरटीए को लिखकर अपने ईमेल पते को अस्थायी रूप से अपडेट करें। सदस्यों द्वारा उक्त अनुरोध शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को या उससे पहले कंपनी को investor@unominda.com पर भेजा जाएगा। ई-

यदि सदस्य डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करते हैं तो उनसे अनरोध किया जाता है कि वे डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक

मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न / कठिनाइयों के मामले में, सदस्य investor@unominda.com को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 है;

i. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी; ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 अगस्त, 2024 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी;

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया:

i. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी सदस्य ई-बोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य लॉगिन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद सदस्य कंपनी के नाम के सामने "Join General Meeting" मेन के अंतर्गत "VC/OAVM link" का लिंक देख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि "Join General Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM link" लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक Shareholder/Member login में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा भी दे रही है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी गई है। भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए। कपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भुल गए हैं, वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पनः प्राप्त कर सकते हैं।

ii. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं या पैरा 5 (i) में ऊपर उल्लिखित लिंक से एजीएम में प्रस्तावित प्रस्तावीं पर ई-वोट कर सकते हैं। युजर आईडी ईवीईएन होगी जिसके आगे कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर होगा।

iii. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, ऑडिट समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने

6. कंपनी के निदेशक मंडल ने 23 मई, 2024 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.35 रुपये के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की, बशर्ते कि एजीएम में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो। लाभांश. यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है. तो लाभांश पाप करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि यानी शकवार. 7 जुन, 2024 को कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को भगतान किया जाएगा (लाभांश पाप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए पहले ही सचित किया जा चका है)। उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैंक खातों को अपने संबंधित डीपी या कंपनी के साथ पंजीकत किया है, लाभांश का भगतान सीधे उक्त बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए लाभांश के भगतान के लिए 'पेबल-एट-पार' वारंट या चेक जारी किए जाएंगे। कंपनी ने शेयरधारकों को अपने बैंक खाते(खातों) को अपडेट करने के लिए 11 जुन, 2024 के ई-मेल के माध्यम से पहले ही सचित कर दिया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को या उससे पहले आरटीए को विवरण भेजकर इसे आरटीए के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी (यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में हैं) और कंपनी (यदि शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं) के साथ अपने वैध पैन को अपडेट करें।

आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों कर योग्य होगी और कंपनी को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दर पर स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होगी। निर्धारित दरों के लिए, स्रोत पर कर की कटौती सदस्यों की आवासीय स्थित और वर्गीकरण, कंपनी द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर आधारित होगी। इस संबंध में सदस्यों को विस्तृत सूचना पहले ही उन सदस्यों को भेज दी गई थी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी इसका खुलासा किया गया है तथा इसका वेबलिंक नीचे दिया गया है :

nttps://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachHis/368f963d-f091-4f93-99af-75d0d04593cd.pdf प्रसई https://nsearchives.nseindia.com/corporate/UNOMINDA_11062024190539_communication_reg_tax_deduction_final_

div2023 24.pdf . जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता की आवश्यकता है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-1020-990 और 1800-224-430 का उपयोग कर सकते हैं।

संस्थागत सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि किसी संस्थागत सदस्य को एजीए में भाग लेने में दिक्कत आ रही है तो वह investor@unominda.com और evoting@nsdl.co.in पर लिख सकता है। किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी संबंधी गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

ı. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढें।

कते ऊनो मिंडा लिमिटे (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा

देनांक: 31 जुलाई, 2024

तरूण कुमार श्रीवास्त कंपनी सचिव और अनपालन अधिका